

## New IC38 CLH Pattern (Hindi) - Textbook questions.

### C-01 बीमा का परिचय

1. इनमें से कौन सा नर्कल्प भारतीय बीमा उद्योग के नलए ननयामक संस्था है?

- I. भारतीय बीमा प्रानधकरण
- II. भारतीय बीमा ननयामक एरुं नकसि प्रानधकरण
- III. भारतीय जीर्न बीमा ननगम
- IV. भारतीय साधारण बीमा ननगम

2. इनमें से क्या जोनिम का नद्वतीयक भार है?

- I. कारोबार में रुकार्ट की कीमत
- II. धनतिस्त सामान की कीमत
- III. भनर्ष्य में होने वाले संभानर्त नुकसानों की भरपाई करने के प्रार्धान के तौर पर नरजरु अलग करके रिना
- IV. हाटव अटक के कारण अस्पताल में भती होने के खर्च

3. इनमें से क्या जोनिम ट्ांसफर का एक तरीका है?

- I. बैंक नफक्स नडपांनजट
- II. बीमा
- III. इश्रुटी शेयर
- IV. रीयल एस्टेट

4. इनमें से नकन पनरशस्थनतयों में बीमा की जरूरत होगी?

- I. परिवार के एकमात्र कमाऊ व्यक्त की अकाल मृत्यु हो सकती है
- II. कोई व्यक्त अपना बटुआ खो सकता है
- III. शेयर की कीमतों में भारी नगरार्ट आ सकती है
- IV. सामान्य टूट-फू ट (इस्तेमाल) के कारण कोई मकान अपना मूल्य खो सकता है

5. इनमें से कौन सी बीमा योजनाएं भारत सरकार द्वारा प्रायोनजत हैं?

- I. पीएम जन आरोग्य योजना – आयुष्मान भारत
- II. पीएम फसल बीमा योजना
- III. पीएम सुरक्षा बीमा योजना
- IV. उपरोक्त सभी

## C-02 बीमा की मुख्य बातें

6. इनमें से कौन सा नर्कल्प बीमा योग्य जोनिम को नहीं दिता है?

- I. आग
- II. चोरी के सामान
- III. चोरी
- IV. जहाज पलट जाने के कारण सामानों का नुकसान

## C-03 बीमा के सिद्धांत

7. घुडसवारी में हुई एक दुघवटना के बाद गीली जमीन पर पड़े रहने के कारण श्ी लपटू को ननमोननया हो जाता है। ननमोननया से श्ी लपटू की मौत हो जाती है। मृत्यु का आसन्न कारण क्या है?

- I. ननमोननया
- II. घोडा
- III. घुडसवारी में दुघवटना
- IV. बदनकस्मती

8. इनमें से क्या ज़बरदस्ती/दबार् का एक उदाहरण है?

- I. रमेश फाइन लप्रट की जानकारी के नबना अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है
- II. रमेश महेश को धमकी देता है नक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करने पर उसे मार डालेगा
- III. रमेश महेश से अनुबंध पर हस्ताक्षर कराने के नलए अपनी पेशेवर स्थिती का इस्तेमाल करता है
- IV. रमेश महेश से अनुबंध पर हस्ताक्षर कराने के नलए झूठी जानकारी देता ह

9. रमेश इनमें से नकस नर्कल्प का बीमा नहीं कर सकता?

- I. रमेश का मकान
- II. रमेश की पत्नी

III. रमेश का दोस्त

IV. रमेश के माता-नपता

10. योगदान के नसद्धान्त का क्या महत्व है?

I. यह पक्का करता है नक बीमा कं पनी के साथ-साथ बीमाधारक भी दा के कुछ नहस्से का योगदान करे

II. यह पक्का करता है नक सभी बीमाधारक जो पूल का नहस्सा हैं, पूल के नकसी प्रनतभागी द्वारा नकए दार में, अपने प्रीनमयम भुगतान के अनुपात में योगदान करे

III. यह पक्का करता है नक एक ही नर्य-स्तु को कर करने वाली कई बीमा कं पननयां नर्य-स्तु में अपने एक्सपोज़र के अनुपात में, एक साथ मिलकर दावा राशि में योगदान करे

IV. यह पक्का करता है नक बीमाधारक कई वर्षा तक चलने वाली समान नकचतों में प्रीनमयम का योगदान कर

## C-04 बीमा अनुबंधों की क्षिशेषताए

11. इनमें से कौन सा नकल्प मान्य बीमा अनुबंध का एक तत्र नहीं हो सकता?

i. प्रस्तार् और स्वीकृति नत

ii. जबरदस्ती/दबार्

iii. प्रनतफल

iv. कानूनी आधार

12. फ्री-लुक अर्नध के दौरान, अगर पॉनलसीधारक, नजसनेनकसी एजेंट के माध्यम से पॉनलसी खरेदी है, इसके नकसी भी ननयम और शर्त से असहमत होता/होती है, तो ह इसे वापस करके नरफंड प्राप्त कर सकता/सकती है; यह नरफंड इन शर्तों के अधीन होगा:

I. ह पॉनलसी दस्तावेज प्राप्त होने के 15 नदनों के भीतर इस नकल्प का इस्तेमाल कर सकता/सकती है

II. उसे नलनित रूप में बीमा कं पनी को इस बारे में बताना होगा

III. प्रीनमयम नरफंड को कर की गई अर्नध के नलए जोनिम प्रीनमयम के अनुपात में समायोनजत नकया जाएगा; साथ ही, बीमा कं पनी द्वारा नचनकत्सा जांच में नकए गए खर्च और स्टांप ड्यूटी शुल्क भी प्रीनमयम नरफंड की रकम से काट नलए जाएंगे

IV. उपरोक्त सभी

13. अगर पॉनलसीधारक ने कोई पॉनलसी खरेदी है और ह इसे नहीं रिना चाहता है, तो \_\_\_\_\_ की अर्नध के दौरान इसे वापस करके नरफंड प्राप्त कर सकता है।

I. स्वतंत्र मूल्यांकन

II. फ्री-लुक

III. रद्द करने

IV. फ्री टायल

### C-05 जोखिम अंकन और रेलटग

14. बीमा में रेलटग को प्रभानर्त करने वाले दो कारकों की पहचान करें।

I. जोखिम की संभारना और गंभीरता

II. जोखिम का स्रोत और प्रकृ नत

III. जोखिम का स्रोत और समय

IV. जोखिम की प्राकृति और प्रभार

15. शुद्ध प्रीनमयम क्या है?

I. इतना अनधक प्रीनमयम नक उससे नसफ़व नुकसानों की भरपाई की जा सके

II. समाज के सीमान्त सदस्यों के नलए लागू प्रीमियम

III. प्रिसननक लागतों के नलए लोलडग के बाद प्रीमियम

V. नुकसान के सबसे हाल के अनुभर् की अर्नध से प्राप्त प्रीमियम

### C-06 दावों पर कारणाई

16. इनमें से कौन सी गनतनर्नध्यों को दावों के पेशेवर ननपटान के तहत र्गीकृ त नहीं नकया जाएगा?

I. नुकसान के कारण से जुडी जानकारी मांगना

II. दावे पर पूर्वाग्रह के साथ नर्चार करना

III. यह पता लगाना नक क्या नुकसान नकसी बीनमत खतरे का पनरणाम था

IV. दावे के तहत देय रानि का मात्रा निर्धारण करना

### C-07 दस्तावेज़ तैयार करना

17. इनमें से क्या आम तौर पर बीमा प्रॉस्पेक्टस का नहस्सा नहीं होता है?

I. ओम्बड्समैन का नाम

II. लाभों के दायरे की तारीख

III. अनधकार (एंटाइटलमेंट)

## IV. अपवाद

18. इनमें से कौन सा नर्कल्प प्रस्तार् फॉमव के संबंध में प्रासंनगक नहीं है?

- I. परम सद्धार
- II. दावे की अपेनक्षत रानि
- III. महत्पूणव त्यों का खुलासा करने का दानयत्र
- IV. उपलब्ध कराई गई जानकारी की गोपनीयता

19. इनमें से क्या मान्य आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार्य नहीं है?

- I. नगरपालिका के रिकॉड से निकाला गया जन्म प्रमाणपत्र
- II. विधायक द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाणपत्र
- III. पासपोर्ट
- IV. पैन कार्ड

## C-08 ग्राहक सेवा

20. ग्राहक के आजीर्न मूल्य का क्या मतलब है?

- I. ग्राहक को आजीर्न सेवा प्रदान करने में नकए गए खर्चों का कु ल योग
- II. ग्राहक से मले कारोबार के आधार पर ग्राहक को दिया गया रैंक
- III. उन आर्थिक लाभों का योग जो ग्राहक के साथ लंबी अवधि का संबंध बनाने से प्राप्त हो सकते हैं
- IV. अधिकतम बीमा जो किसी ग्राहक को दिया जा सकता है

21. उस परिदृश्य को पहचानें जहां बीमा की ज़रूरत के लिए विचार -विमश करना ज़रूरी नहीं है।

- I. संपत्ति बीमा
- II. कारोबार देयता बीमा
- III. तीसरे पक्ष की देयता के नलए मोटर बीमा
- IV. अश्रम बीमा

22. इनमें से नकसकी र्जह से एक स्स्थ/बेहतर संबंध नहीं बनता है?

- I. आकर्षण
- II. नर्चर्ास/भरोसा
- III. संवाद /संचार
- IV. नापसंद होना

23. इनमें से क्या सनक्रय रूप से सुनने का एक तत्र नहीं है?

- I. अच्छी तरह ध्यान देना
- II. बेहद पूर्वाग्रह रिना
- III. हमददी से सुनना
- IV. सही तरीके से जर्ाब देना

24. इनमेंसे क्या नैतिक आचरण की विशेषता नहीं है?

- I. सटीक खुलासे करना तानक ग्राहक को जानकार ननणवय लेने में सक्षम बनाया जा सके
- II. ग्राहक /क्लाइंट के कारोबार और ननजी जानकारी की गोपनीयता बनाए रिना
- III. खुद के नहतों को ग्राहक /क्लाइंट के नहतों से आगे रिना
- IV. ग्राहक /क्लाइंट के नहतों को खुद के नहतों से आगे रिना

## C-09 क्षशकायत क्षनिरण प्रणाली

25. \_\_\_\_\_ का अनधकार क्षेत्र उन निकायतों पर ध्यान देना है जहां सामानों या सेर्ाओं का मूल्य और मुआर्जे का दावा 1 करोड रुपये तक का है।

- I. नजला आयोग
- II. राज्य आयोग
- III. नजला पनरर्द्
- IV. राष्ट्रीय आयोग

## C-10 बीमा एजेंटों के क्षलए क्षनयामक पहलू

26. एक बीमा एजेंट यह करेगा -

I. बीमा कंपनी द्वारा बगैर नतयुक्त के बीमा कारोबार मांगना या प्राप्त करना

II. प्रस्तार् फॉर्म में कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने के नलए प्रस्तार्क को प्रलोभन देना;

III. प्रस्तार्क द्वारा मांगे जाने पर, बिक्री के लिए उपलब्ध बीमा उत्पाद के संबंध में कमीशन के पैमाने बताना;

IV. ऐसी दरों, लाभों, नियमों और शर्तों की पेशकश करना जो उसकी बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तानर्त दरों, लाभों, ननयमों और शर्तों से अलग हैं

27. एक बीमा एजेंट को इस बात की अनुमक्षत होती है

I. किसी अन्य बीमा एजेंट द्वारा पेश किए गए नकसी प्रस्तार् में हस्तक्षेप करना

II. बीमा पॉलिसियां मांगने और प्राप्त करने के लिए बहुस्तरीय बिक्री का सहारा लेना

III. किसी बीमा अनुबंध के तहत लाभार्थी से बीमा की आय का एक हिस्सा प्राप्त करना

IV. बिक्री के नलए प्रस्तावित बीमा उत्पाद के संबंध में बीमा कंपनी द्वारा नलया जाने वाला प्रीनमयम बताना



## L-01 जीवि बीमा में क्या-क्या शानमि है

28. विविधकरण से वित्तीय बाजारों में जोखिम कैसे कमी होता है.

- I. एकाधिक स्रोतों से फंड इकट्ठा करना और उसे किसी एक जंगम पर निवेश करना
- II. एसेट की विभिन्न श्रेणियों में फंड का निवेश करना
- III. निवेशों के बीच समय का अंतराल बनाए रखना
- IV. सुरक्षित एसेट/संपत्तियों में निवेश करना

## L-02 वित्तीय नियोजन

29. इनमें से कौन सा विकल्प अप्रत्याशित घटनाओं के विरुद्ध विशेष सुरक्षा प्रदान करता है?

- I. बीमा
- II. लेनदेन वाले उत्पाद जैसे कि बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट
- III. शेयर
- IV. डिबेंचर

30. वित्तीय नियोजन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है?

- I. सेवानिवृत्ति के बाद
- II. सबसे पहला वेतन मिलते ही
- III. शादी के बाद
- IV. सिर्फ अमीर बनने के बाद

31. इनमें से कौन सा विकल्प कर नियोजन का एक मकसद नहीं है?

1. अधिकतम कर लाभ
- II. विवेकपूर्ण निवेश के परिणाम स्वरूप कर का बोझ कम करना
- III. आयकर से बचना
- IV. टैक्स ब्रेक का पूरा फायदा उठाना

## L-03 जीवन बीमा उत्पाद: पारंपरिक

32. इनमें से कौन सा एक अमूर्त (अप्रत्यक्ष) उत्पाद है?

- I. कार
- II. मकान
- III. जीवन बीमा
- IV. साबुन

33. आजीवन बीमा के लिए भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम अवधि बीमा (टर्म इंश्योरेंस) के वि भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम से \_\_\_\_\_

- I. अधिक
- II. कम
- III. बराबर होता है।
- IV. बहुत अधिक

#### L-04 जीवन बीमा उत्पाद: गैर- पारंपरिक

34. इनमें से कौन सा एक गैर-पारंपरिक जीवन बीमा उत्पाद है?

1. टर्म इंश्योरेंस
- II. यूनिवर्सल लाइफ़ इंश्योरेंस
- III. बंदोबस्ती बीमा
- IV. आजीवन बीमा

35. इनमें से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?

1. वैरिएबल लाइफ़ इंश्योरेंस एक अस्थायी जीवन बीमा पॉलिसी है
- II. वैरिएबल लाइफ़ इंश्योरेंस एक स्थायी जीवन बीमा पॉलिसी है
- III. पॉलिसी में एक नकद मूल्य खाता होता है
- IV. पॉलिसी न्यूनतम मृत्यु लाभ की गारंटी देती है

#### L-05 जीवन बीमा के इस्तेमाल

36. बंधक मोचन बीमा के पीछे क्या उद्देश्य है?

- I. बंधक की किफ़ायती दरों की सुविधा पाना
- II. होम लोन लेने वालों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना
- III. बंधक संपत्ति के मूल्य की सुरक्षा करना
- IV. चूक (डिफॉल्ट) के मामले में बेदखली से बचना

#### L-06 जीवन बीमा में मूल्य मनधाणि औ मूल्यांकन

37. पॉलिसी में चूक (लैप्स) होने का क्या मतलब है?

- I. पॉलिसीधारक किसी पॉलिसी के लिए प्रीमियम भुगतान पूरा करता है।
- II. पॉलिसीधारक किसी पॉलिसी के लिए प्रीमियम भुगतान करना बंद कर देता है।

- III. पॉलिसी परिपक्व हो जाती है  
IV. पॉलिसी को बाज़ार से वापस ले लिया जाता है।

### L-07 जीवन बीमा के दस्तावेज़

38. पहली प्रीमियम रसीद (एफपीआर) का क्या महत्व है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें।  
I. फ्री-लुक पीरियड खत्म हो गया है  
II. यह इस बात का प्रमाण है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया है  
III. अब पॉलिसी को रद्द नहीं किया जा सकता  
IV. पॉलिसी ने कुछ नकद मूल्य अर्जित किया है
39. किन परिस्थितियों में पॉलिसीधारक को नियुक्त व्याक्ती की नियुक्ती करना जरूरी होगा  
I. भीमा धारक नाबालिग है  
II. नामिती नाबालिग है  
III. पॉलिसीधारक की मानसिक स्थिती ठीक नहीं है  
IV. पॉलिसीधारक शादीशुदा नहीं

### L-08 जीवन बीमा का जोमखम अंकन

40. कोई जीवन बीमा कंपनी इनमें से किन मामलों को अस्वीकार या स्थगित कर सकती हैं?  
1. 18 साल की उम्र का स्वस्थ व्यक्ति  
II. कोई खिलाड़ी  
III. एड्स से पीड़ित कोई व्यक्ति  
IV. गृहिणी जिसकी अपनी कोई आय नहीं है
41. इनमें से कौन सा विकल्प नैतिक खतरे का एक उदाहरण है?  
1. स्टंट दिखाते हुए स्टंट कलाकार की मौत हो जाती है  
II. कोई व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में शराब पीता है क्योंकि उसने बीमा कराया है  
III. बीमाधारक प्रीमियम भुगतानों में चूक करता है  
IV. प्रस्तावक पॉलिसी दस्तावेज़ खो देता है

### L-09 जीवन बीमा के दाव

- 42 इनमें से कौन सा कथन दावे की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह बताता है? सबसे उप विकल्प चुनें।  
I. दावा एक ऐसा अनुरोध है जिससे बीमा कंपनी अनुबंध में निर्दिष्ट वादे को पूरा करेगी  
II. दावा एक ऐसी माँग है जिससे बीमा कंपनी अनुबंध में निर्दिष्ट वादे को पूरा करेगी

- III. दावा एक ऐसी माँग है जिससे बीमाधारक समझौते में निर्दिष्ट वादे को पूरा करेगा  
 IV. दावा एक ऐसा अनुरोध है जिससे बीमाधारक समझौते में निर्दिष्ट वादे को पूरा करेगा सारांश

### H-01 स्वास्थ्य बीमा का पररचय

43. इनमें से कौन सी बीमारी के कलए जीर्नशैली के कारक कजम्पमेदार नहीं हैं (यानि ये व्याक्ती के नियंत्रण में नहीं हैं)?

- I. कै सर
- II. एड्स
- III. मलेकरया
- IV. उच्च रक्तचाप

44. इनमें से क्या प्राथकमक स्वास्थ्य का कहस्सा है?

- I. बुखार
- II. कै सर
- III. अंग प्रत्यारोपण
- IV. उच्च जोकखम वाली गर्भावस्था

45. व्यक्तियों और उनके परिवारों के कलए पहला मानकीकृत स्वास्थ्य बीमा उत्पाद भारतीय बाजार में सभी चार राषरीयकृत त गैर-जीर्न बीमा कं पकनयों द्वारा र्षव \_\_\_\_\_ में लॉन्च ककया गया था।

- I. 1948
- II. 1954
- III. 1986
- IV. 2001

### H02. वारंटी बीमा संबंधी दस्तावेज़

46. वारंटी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है?

- I. वारंटी एक ऐसी शर्त है जो पॉलिसी में बताए बिना लागू होती है।
- II. वारंटी पॉलिसी दस्तावेज़ का हिस्सा बनती है
- III. वारंटी के बारे में हमेशा अलग से बीमाधारक को बताया जाता है और यह पॉलिसी दस्तावेज़ का हिस्सा नहीं हो सकती
- IV. वारंटी का उल्लंघन होने पर भी दावा भुगतान किया जाएगा।

47. अगर पॉलिसी जारी करते समय उसके कुछ नियमों और शर्तों को संशोधित करने की आवश्यकता होती है, तो किया जाता है।

I. वारंटी

II. पृष्ठांकन

III. संशोधन/बदलाव

IV. संशोधन संभव नहीं हैं

### H-03 स्वास्थ्य बीमा उत्पाद

48. हालांकि, अस्पताल में भती होने के पहले के खर्चों के कलए आर्रण की अर्कध अलग-अलग बीमा कं पनी के मामले में अलग-अलग होगी और इसे पॉकलसी में कनधाकरत ककया जाता है, अस्पताल में भती होने से पहले के खर्चों के कलए सबसे आम आर्रण \_\_\_\_\_ का है

I. पंद्रह दिन

II. तेरह दिन

III. पैतालीस दिन

IV. साठ दिन

49. आईआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार, व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के नवीनीकरण के लिए की अनुग्रह अवधि की अनुमति है।

1. पंद्रह दिन

II. तेरह दिन

III. पैतालीस दिन

IV. साठ दिन

### H-04 स्वास्थ्य बीमा का बीमालेखन

50. जोखिम अंकन \_\_\_\_\_ की एक प्रक्रिया है।

I. बीमा उत्पादों की कबक्री

II. ग्राहकों से प्रीकमयम इकट्टा करने

III. जोखिम का मूल्यांकन और जोकखम का मूल्य कनधारण

IV. कर्कभन्न बीमा उत्पादों की कबक्री

51. जोकखम अंकन में परम सद्द्वार् का सिद्धांत का पालन करना \_\_\_\_\_ के कलए ज़रूरी है।

I. बीमा कं पनी

II. बीमाधारक

III. बीमा कं पनी और बीमाधारक, दोनों

IV. चिकित्सा परीक्षक

52. बीमा योग्य कहत का अथव है \_\_\_\_\_।

I. बीमा के कलए प्रस्ताकर्त संपकत्त में व्यक्त का कर्तीय कहत

II. हं संपकत्त जो पहले से बीकमत है

III. नुकसान में प्रत्येक बीमा कं पनी का कहस्सा, जब एक से अकधक बीमा कं पनी एक ही नुकसान को आर्करत करती हो

IV. नुकसान की रकम कजसे बीमा कं पनी से सूल ककया जा सकता ह

53. चिकित्सकीय बीमालेखन के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है?

I. इसमें कचककत्सा करपोटव प्राप्त करने और मूल्यांकन करने की उच्च लागत शाकमल है।

II. स्वास्थ्य बीमा के कलए चिकित्सकीय जोकखम अंकन में मौजूदा स्वास्थ्य क्स्थकत और आयु प्रमुख कारक हैं।

III. प्रस्तार्को को अपने स्वास्थ्य जोकखम प्रोफाइल का आकलन करने के कलए कचककत्सा और रोग संबंधी (पैथोलोकजकल) जांच से गुजरना पडता है।

IV. जोकखम के प्रत्येक टंक पर प्रकतशत मूल्यांकन ककया जाता है।

54.A) समूह स्वास्थ्य बीमा में, समूह का हिस्सा बनने वाला कोई भी व्यक्ति बीमा कंपनी के खिलाफ़ प्रतिकूल चयन कर सकता है।

B) समूह स्वास्थ्य बीमा केवल नियोक्ता-कर्मचारी समूहों को आवरण प्रदान करता है।

I. कथन 1 सही है और कथन 2 गलत

II. कथन 2 सही है और कथन 1 गलत

III. कथन 1 और कथन 2 सही हैं

IV. कथन 1 और कथन 2 गलत

## H-05 स्वास्थ्य बीमा के दावे

55. इनमें से कौन स्वास्थ्य बीमा दावा प्रकक्रया में कहतधारक नहीं है?

I. ग्राहक

II. पुकलस कर्भगि

III. कर्कनयामक

IV. टीपीए

56 इनमें से कौन सा दस्तावेज़ अस्पतालों के पास होता है जिसमें किसी अंतः-रोगी पर किए गए सभी उपचारों की जानकारी होती है?

- I. जांच रिपोर्ट
- II. डिस्चार्ज की जानकारी
- III. केस पेपर
- IV. अस्पताल पंजीकरण प्रमाणपत्र

57. दावे की स्थिति के आधार पर बीमा कंपनी के बही-खातों में सभी दावों के लिए किए गए प्रावधान की राशि को

- I. पूलिंग
- II. अकाउंटिंग
- III. के रूप में जाना जाता है।
- IV. रिजर्निंग

58. स्थायी पूर्ण विकलांगता दावे के लिए इनमें से कौन से दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है?

- I. विधिवत भरा हुआ व्यक्तिगत दुर्घटना दावा प्रपत्र, जिस पर दावेदार का हस्ताक्षर हो।
- II. बीमा पॉलिसी की प्रति।
- III. बीमित व्यक्ति की विकलांगता को प्रमाणित करने वाले सिविल सर्जन या किसी समकक्ष सक्षम चिकित्सक से स्थायी विकलांगता प्रमाणपत्र।
- IV. इलाज करने वाले डॉक्टर से फिटनेस प्रमाणपत्र, जो यह प्रमाणित करेगा कि बीमाधारक अपने सामान्य कामकाज करने के हिसाब से फिट (तंदुरुस्त) है।

59. बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराई जाती है, तो अधिकांश अस्पताल सभी अंतरराष्ट्रीय बीमा कंपनियों से भुगतान की गारंटी स्वीकार करते हैं।

- I. कानूनी देयता
- II. कोरोना रक्षक
- III. विदेश यात्रा
- IV. बंदोबस्ती